

प्रेस नोट दिनांक 11.01.2023 थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

थाना मोहाना पुलिस द्वारा अवैध वसूली कर रहे 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के बिरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व अखिलेश वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर आज दिनांक 11.01.2023 को मु0अ0सं0 11/2023 धारा 386/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को ग्राम सगरहवा से समय करीब 10:55 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. शिवसागर पुत्र जीतबहादुर साकिन दुल्हा दरम्यानी टोला सगरहवा थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

01. संतोष कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
02. उ0नि0 सैय्यद वसी हैदर जैदी थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
03. मु0 आरक्षी अंगद प्रसाद मौर्य थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- का0 सुरेन्द्र कुमार थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य साइबर सेल,सिद्धार्थनगर दिनांक 11-01-2023

लोन देने के नाम पर प्रि-इन्सटालमेन्ट के रूप में अभिषेक अग्रहरी के खाते से फ्राड हुए सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10,000/- रु0 को साइबर सेल सिद्धार्थनगर ने कराया वापस ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ, के कुशल पर्यवेक्षण व नेतृत्व में प्रभारी साइबर सेल सुभाष यादव व टीम साइबर सेल द्वारा अभिषेक अग्रहरी निवासी ग्राम बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर के खाते से फ्राड हुए धनराशि को कार्यवाही करते हुए अभिषेक अग्रहरी के खाते में रूपये 10000 वापस कराये गए ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

शिकायतकर्ता अभिषेक अग्रहरी निवासी ग्राम बढनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोन देने के नाम पर प्रि-इन्सटालमेन्ट के रूप में कुल 10,000 रूपये फ्राड कर अपने खाता मे जमा करा लिया गया था । शिकायतकर्ता उपरोक्त को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उसके साथ फ्राड हो गया है । उक्त की सूचना साइबर सेल सिद्धार्थनगर को तथा साइबर पुलिस पोर्टल 1930 पर दी । उक्त शिकायत पर साइबर सेल सिद्धार्थनगर द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 10/01/2023 को अभिषेक अग्रहरी के खाते में सम्पूर्ण धनराशि रूपये 10,000/- वापस कराया गया । साइबर टीम के उक्त सराहनीय कार्य के लिए अभिषेक अग्रहरी द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

धनराशि बरामद कराने वाली साइबर पुलिस टीम का विवरण-

- 1-निरीक्षक सुभाष यादव, प्रभारी साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 2- उ0 नि0 हरिओम कुशवाहा, साइबर सेल जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 3- आरक्षी अतुल चौबे साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 4- आरक्षी अजय यादव साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 5- आरक्षी आशुतोष जायसवाल साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 6- आरक्षी राहुल मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7- आरक्षी शिवम् मौर्या साइबर सेल, जनपद सिद्धार्थनगर ।

साइबर क्राइम से कैसे बचे-

- 1-साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इक्ड्डा करते है और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते है। किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या

सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें। जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि।

2-ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्स्टैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि।

3-अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें।

4-वेब पेज पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले, वेबसाइट के लिंक की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि वेब पता https ("s" से सुरक्षित) से शुरू होता है और एक बन्द ताले के निशान को भी देखें।

5-ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें।

6-साइबर अपराध होने पर सूचना तत्काल हेल्प लाईन नं0 1930 पर व पुलिस दें। 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है।

7-सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें।

8-फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें।

9-ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें।

10-अधिक सहायता हेतु साइबर क्राइम सेल सिद्धार्थनगर के मो0न0 8181818200 एवं 8354096891 पर सम्पर्क करें।

❖❖ साइबर ठगों से सावधान! ❖❖ जानकारी और जागरूकता ही बचाव है।

#BeCyberSafe #GoodJobCop #UPPolice

प्रेस नोट थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 11-01-2023

थाना सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा 01 नफर वारंटी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में, अखिलेश कुमार वर्मा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 11-01-2023 को सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में फौजदारी वाद सं0-284/2022 धारा 107/111 सीआरपीसी से सम्बन्धित 01 नफर वारण्टी प्रदीप साहनी पुत्र प्रेमनाथ साहनी साकिन सनई खुर्द थाना व जनपद सिद्धार्थनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार वारंटी का विवरण-

1. प्रदीप साहनी पुत्र प्रेमनाथ साहनी साकिन सनई खुर्द थाना व जनपद सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. सतीश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
2. उ0नि0 सुरेन्द्र कुमार सिंह थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
3. मु0 आरक्षी उदय प्रताप सिंह थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।
4. आरक्षी विनय यादव थाना सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट -आपरेशन क्लीन दिनांक 11-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर ।

‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत थाना इटवा पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 70 वाहनों की नीलामी कराकर मय GST कुल 8,23,050/- रू0 के राजस्व की प्राप्ति ।
सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अब तक कुल 537 वाहनों की नीलामी कर 68,14,860/-रू0 राजस्व प्राप्त किया गया ।

प्रायः थाना परिसर व परिसर के बाहर बेतरतीब तथा बेहिसाब संख्या में दो पहिया व चार पहिया वाहन खड़े रहते हैं। इन वाहनों से थाने की काफी अधिक भूमि व्यर्थ हो जाती है व दैनिक थाना कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा जिले के सभी थानों के भ्रमण के दौरान पाया गया कि थाना परिसर में लम्बे समय से काफी संख्या में लावारिस, मालमुकदमाती व एम0वी0 एक्ट में सीजशुदा वाहन खड़े हैं। जो धूप, गर्मी, बरसात की वजह से जंग लगकर धीरे-धीरे नष्ट हो रहे हैं। जिस कारण से न्यायिक प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न होता है साथ ही राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो रही है। वाहनों के क्षरण के कारण थाना परिसर में रहने व आने-जाने वालो व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव की सम्भावना बनी रहती है। थाना परिसर में लम्बे समय से खड़े वाहनों के सम्बन्ध में समय-समय पर न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये हैं ।

मा0 उच्चतम न्यायालय में स्पेशल लीव पिटीशन (क्रिमिनल) सं0 2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में थाने में खड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में थाने पर खड़े माल मुकदमाती व अन्य वाहनों के निस्तारण हेतु जनपद सिद्धार्थनगर में ‘आपरेशन क्लीन’ 14 जुलाई 2022 से प्रारम्भ किया गया । ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत सभी थानों को चरणबद्ध एवं समयबद्ध लक्ष्य दिया गया । सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर ‘आपरेशन क्लीन’ के अन्तर्गत कार्यवाही प्रचलित है ।

आज दिनांक 11.01.2023 को हरीश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी इटवा, महेश कुमार, नायब तहसीलदार इटवा, बृजेश कुमार, आर0आई0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी सिद्धार्थनगर की गठित कमेटी द्वारा थाना इटवा में लम्बित माल मुकदमाती, एमवीएक्ट से सम्बन्धित सीज शुदा कुल 70 वाहनों जिसमें 51 दोपहिया वाहन (मालमुकदमाती- 33, एम0वी0 एक्ट में सीज -18), 13 चार पहिया वाहन (मालमुकदमाती-05, एम0वी0 एक्ट में सीज 08),

06 तीन पहिया वाहन (मालमुकदमाती-01, एम0वी0 एक्ट मे सीज 05) की नीलामी थाना इटवा परिसर में विधि सम्मत तरीके से करायी गयी । जिससे कुल नीलामी की धनराशि मय GST कुल 8,23,050/-रु0 का राजस्व प्राप्त हुआ । जिसको राजकीय कोषागार में जमा कराया जायेगा ।

पूर्व में थाना शोहरतगढ़ से 98 वाहन, ढेबरुआ से 94 वाहन, डुमरियागंज से 93 वाहन, चिल्हिया से 45 वाहन, थाना कपिलवस्तु से 26 वाहन, थान लोटन से 25 वाहन, थाना सिद्धार्थनगर से 24 वाहन, थाना उसका बाजार से 21 वाहन, खेसरहा से 13 वाहन, पथरा बाजार से 11 वाहन, जोगिया उदयपुर से 09 वाहन, मिश्रौलिया से 04 वाहन थाना इटवा से 02 वाहन, शिवनगर डिड़ई से 02 वाहनों की नीलामी करायी जा चुकी है । अब तक कुल 537 वाहनों की नीलामी से कुल 68,14,860/- रु0 राजस्व की प्राप्ति हुई है ।





प्रेस नोट:दिनांक 11.01.2023 यातायात पुलिस सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 11.01.2023 को सड़क सुरक्षा माह के छठे दिवस पर अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री देवी गुलाम के कुशल निर्देशन में प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात पुलिस टीम द्वारा पी0ए0 सिस्टम,पोस्टर पम्पलेट आदि के माध्यम से साड़ी तिराहा, पेट्रोल पम्प तिराहा, सिद्धार्थ तिराहा, बर्डपुर आदि स्थानों पर यातायात जागरूकता से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार किया गया एवम प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय यातायात टीम तथा ए0आर0टी0ओ0 द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मादक द्रव्यों का सेवन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया तथा वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया, जिससे कोहरे में वाहनों की दृश्यता बढ़ सके एवम सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके,तथा वाहन चेकिंग के दौरान यातायात नियम का पालन न करने वाले 30 वाहनों से 28500/-रु0 शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी तथा आम जनमानस को हेलमेट व सीट बेल्ट धारण करने के पश्चात् ही वाहन चलाने और प्रत्येक दशा में यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भारी कमी लायी जा सके।